

### B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301 Tel.: 0120 4602424 | Fax : 0120 3911401 Mail : info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/STX/letters/2021-22/AM/1094 June 21, 2021

To, The Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 To,
The Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001

**NSE-SYMBOL: BAGFILMS** 

BSE-Scrip Code: 532507

Sub: - Submission of Newspaper Advertisement-Intimation of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of newspapers advertisement published in Business Standard-English and Business Standard-Hindi edition dated June 21, 2021 regarding intimation of Board Meeting to be held on Tuesday, the 29<sup>th</sup> day of June, 2021.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

legiv (m)

For B.A.G. Films and Media Limited

(Rajeev Parashar)
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: a/a















# Concealing material fact can lead to rejection

When truthful

constitutes a

breach of good

given, it

answers are not



### CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

Amar Singh Bishnoi and his father Arvind had borrowed an amount of not payable to them, but to the financer. ₹2,52,27,902 from HDB Financial Services as loan against property. To the claim and also stated that it was safeguard the repayment of the loan, entitled to recover the claim inadverthey bought a policy to cover the life tently paid under the policy for the of the first named borrower (Amar vehicle loan.

Singh) under HDFC Life Group Credit Protect Plus Insurance Plan for a sum assured of ₹99,90,249, for which they had to pay a yearly premium for ten vears.

faith, entitling the insurer to treat the In addition to this loan, they also borrowed an policy as void additional amount of ₹5 lakh for the purchase of a vehicle. To cover the repayment of this loan, they

purchased another policy of ₹5 lakh. In addition, Amar Bishnoi and his wife Ritika purchased a Health cirrhosis since 2013. Suraksha Policy, with coverage of ₹2

lakh each. During the tenure of the policies, Amar was admitted to Max Super Speciality Hospital in Dehradun on July 25, 2014, and expired on July 28, 2014. So, a claim was lodged under the two policies which had been issued to are not given, it constitutes a breach of secure the loans.

the policy issued for the vehicle loan, by paying the outstanding loan amount to the financer and the balance to his widow who was named as the nominee.

The claim under the policy issued for the loan against property was repudiated on the ground that the insured Amar Singh had suppressed the material fact that he was suffering from cirrhosis, a chronic liver disease in

and Arvind, then filed a complaint before the Uttaranchal State Commission for a direction to HDFC to clear the outstanding loan by making payment to HDB Finance.

The insurer contested the complaint, stating it had got the claim investigated by Saaransh Service Agency and had learned that Amar had failed to disclose pre-existing cirrhosis of the liver. The medical reports and the death summary also attributed the cause of his death to cirrhosis. The insurer also questioned the right of the parents to file the complaint, as the amount was The insurer justified the repudiation of

The Uttaranchal State Commission directed the insurer to pay the entire insured sum of ₹99,90,249 to the financer. HDFC appealed against the order. It argued that the insurance contract was void as Amar had suppressed a material fact.

National Commission observed that Amar's clinical history revealed that he was an alcoholic and a smoker and a known case of liver

The National Commission observed that the objective of a proposal form with various questions relating to health was to enable the insurer to assess its contractual liability, and either impose special conditions or refuse to underwrite the risk. When truthful answers good faith, entitling the insurer to treat The insurer settled the claim under the policy as void, as laid down by the Supreme Court in Reliance Life Insurance Co. Ltd. v/s Rekhaben Nareshbhai Rathod.

Accordingly, by its order of June 14, 2021, delivered by S.M. Kantikar, the National Commission set aside the order of the State Commission and dismissed the complaint, holding that the claim had been rightly repudiated.

January 2013. Amar's parents, Poonam The writer is a consumer activist

# Get education loan from foreign financier without collateral

But their criteria for the colleges and courses they are willing to finance are stringent

ucknow-based Himanshu Singh is set to begin a Masters in Finance course at the University of California, Irvine, this August. Says the 29-year-old: "I applied to a couple of Indian lenders for funding, but they took a long time to respond. One player said it would not need collateral but later changed its stance." Singh then applied to a foreign lender called Prodigy Finance and was successful in getting a \$50,000 loan.

### **Borrowing from domestic lenders** not easy

Indian banks and non-banking finance companies (NBFC) that give foreign education loans impose a few pre-conditions. Most demand some collateral. Says Adhil Shetty, chief executive officer, Bankbazaar: "The cost of studying abroad runs into tens of lakhs of rupees, so lenders are not willing to fund an education loan without collateral, usually in the form of property. And, the property must be freehold, with no encumbrances, such as other loans or liens." The need to provide collateral arises

once the amount exceeds ₹7.5 lakh. Some domestic lenders accept financial assets as collateral. Says Naveen Chopra, founder, The Chopras, a pan-India education consulting company: "Some accept fixed deposits, mutual funds, and stocks also."

Many lenders also insist on a co-borrower, usually a parent. The co-borrower acts as the guarantor who has to settle the dues if the student defaults. Since the loan amount is large, the coborrower's creditworthiness must be high. Many parents have been laid off, taken a pay cut, or seen a decline in their business revenue and are hence not able to act as co-borrowers.

According to an industry expert, "After finishing their course, students change their city when they take up a job. An Indian co-applicant makes it easier for lenders to trace the applicant."

# Smooth processing, less

When he encountered difficulties in

Group Term Life Insurance Policy for

Employees of Punjab & Sind Bank. Relevant

details, RFP may be downloaded from the

bank's website www.psbindia.com. Any

further changes related to the said tender

shall be published on Bank's website only.

**PUBLIC NOTICE** 

It is hereby informed that As

per Securities and Exchange

Board of India Order-

WTM/AB/WRO/ILO/2/2020-

2021, A2Financial Services is

terminating all business

dealings with complaints/

investors and reimburses any

kind. Contact on given number

with in time period.

Ashish-9893966669,

Ashutosh-6262392301/

Indore Madhya Pradesh



getting a loan from an Indian lender, Singh Prodigy applied to Finance. He says: "The paperwork required was not burdensome and the loan approval came within 21 days." Prodigy didn't ask for collateral.

When a student borrows from a foreign lender, his credit history gets built in the country he has emigrated to. Says Ashwini Kumar, India general manager and vice president, Mpower Finance: "This makes it WITHIN 21 DAYS OF easier for him to get integrated into the new country's financial system."

### Interest rates vary

The interest rate can vary widely. Singh will pay a variable interest rate of 8.93 per cent.

While he has borrowed \$50,000, the lender has charged him a fee of \$2,500. So, his loan amount has risen to \$52,500. His effective interest rate on the principal of \$50,000 comes to 10.22 per cent.

Singh is on a variable interest rate loan benchmarked to the London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR). If the bench-



"THE PAPERWORK **REQUIRED WAS NOT** DIFFICULTANDTHE LOAN WAS SANCTIONED APPLYING"

HIMANSHU SINGH, WHO TOOK A \$50,000 EDUCATION LOAN FROM PRODIGY FINANCE

Lenders offer discounts on the interest rate if the student sets up auto-pay, pays regularly, and crosses set academic milestones on schedule.

charged

lenders.'

mark rate surges, his loan

burden could get heavier.

offer fixed-rate loans. Says

Kumar: "Our interest rate

is fixed, so students won't

have to worry about inter-

Indian students usually

range from 9 to 14 per

cent. Some educational

institutions have tie-ups

Chopra: "Students can

sometimes get lower rates

of around 4-5 per cent if

they take a loan through

their institution. The rates

can be a good 3-5 percent-

age points lower than that

by

Indian

lenders. Says

Interest rates for

est-rate fluctuations."

Some players also

### Stringent eligibility criteria

Since these lenders offer massive loans without asking for collateral or a co-borrower, they set the bar high in terms of whom they lend to. Says Chopra: "The

# PROS AND CONS OF **FOREIGN BORROWING**

- No collateral or co-borrower required
  - Paperwork not burdensome, quick
- Credit history gets built in foreign

### CONS

- Must have admission to a very
- If student has to return to India,

- good college/university and course
- rupee depreciation could add to
- loan burden

### student should have got admission to a good college and good course with strong earning potential."

The amount lenders are willing to  $offer \, also \, depends \, on \, the \, university \, and \,$ the course. They are usually willing to lend more for a STEM (science, technology, engineering, and Math) or an MBA course. Singh was offered a loan of \$70.000 but availed of \$50.000. Students going to study liberal arts or other courses may be offered a lower amount.

MPower currently finances students heading to universities in the US and Canada, while Prodigy caters to those going to the UK and the US.

### Be aware of the risks

Since the loan amount is high, everything hinges on the student's ability to get a well-paying job in that country. If he has to return to India and take up a job here, he could face a double whammy. A job in India may pay much less. And as M Barve, MB Wealth Financial Solution says: "You will end up paying a dollar loan while earning in rupee." The rupee depreciates against the dollar at an average rate of 3-4 per cent annually.

A loan from a foreign lender also does not qualify for tax deduction under Section 80E of the Income-Tax Act.

# **PAPER**

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

**Business Standard** 

Insight Out



business-standard.com

### **Business Standard DELHI EDITION** Printed and Published by Nandan Singh

Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian **TENDER NOTICE** Express (P) Ltd. A-8. Sector-7. Noida Gautam Budh Nagar-201301 and Sealed Tenders are invited for renewal of

> published at Nehru House, 4 Bahadu Shah Zafar Marg, New Delhi 110002 Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in

For Subscription and Circulation enquiries please contact: Ms. Mansi Singh **Head-Customer Relations** 

Business Standard Private Limited.

H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs\_bs@bsmail.in or sms, REACHBS TO 57575

DISCLAIMER News reports and featur articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstance beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the dvertisers concerned

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, i prohibited without the prior written conse of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and

**No Air Surcharge** 

# भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

**AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES** 

The following State Governments/UTs have offered to sell 10 to 35 years securities by way of auction for an aggregate amount of ₹19,100 crore (Face Value)

	State/Union Territory	Amount to be raised (₹ cr)	Additional borrowing (Green Shoe) option (₹ cr)	Tenure (in years)	Type of auctio
	Andhra Pradesh	1,000	-	15	Yield ba
	Andria Fradesii	1,000	-	16	Yield ba
1	•	400		40	

	Total	19,100			
Э.	West Bengal	3,000	-	15	Yield based
9.	Uttar Pradesh	2,500	1	10	Yield based
В.	Telangana	1,000	ı	20	Yield based
, .	Taniii Nadu	1,000	1	Reissue of 6.96% TN SDL 2056	Price based
7.	Tamil Nadu	1,000	ı	10	Yield based
υ.		1,000	1	15	Yield based
ô.	Maharashtra Rajasthan	1,000	-	11	Yield based
Э.		1,000	-	11	Yield based
5.	Kerala	1,000	500	10	Yield based
		500	-	17	Yield based
4.		1,000	-	20	Yield based
		1,000	-	15	Yield based
3.	Haryana	2,000	-	16	Yield based
2.	Goa	100	-	10	Yield based
1.	Andhra Pradesh	1,000	-	16	Yield based
1	Andhus Duadach	1,000	-	15	Yield based

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on June 22, 2021 (Tuesday) For further details please refer to RBI press release dated June 17, 2021 (Thursday) on RBI website (www.rbi.org.in).

"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money"

BAG B.A.G. Films and Media Limited CIN: L74899DL1993PLC051841

Registered Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No. 8, Tel. No.: 0120-4602424, Fax No.: 0120-3911401

### Veb: www.bagnetwork24.in E-mail: info@bagnetwork NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby giver that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday June 29, 2021, at its Corporate office, to consider and approve, *inter-alia*, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2021 and to consider and recommend final dividend, if any.

The information is also available o the Company's website viz www.bagnetwork24.in and also available or the Website of Stock Exchanges viz www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Rajeev Parashar Place: Noida Company Secretary Corp. Of.: FC-23, Sector-16A, Film City, Noida (UP) - 201 301.

For B.A.G. Films and Media Limited

# Gujarat State Petronet Limited Regd Office: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010 Tel.: +91-79-23268500/700

Fax: +91-79-23238506 Website: www.gspcgroup.com

**NOTICE INVITING TENDER** 

Gujarat State Petronet Limited (GSPL) is laying a gas grid, to facilitate gas transmission from supply points to demand centers GSPL invites bids from competent agencies for following requirements vide "single stage, three-part" bidding process

Tender-1: Comprehensive AMC for UPSs installed at various locations of GSPL Gas grid Tender-2 : ARC for refilling of Helium Gas cylinders at various locations of GSPL Gas grid Hiring of Comprehensive Maintenance services for Ahmedabad & Bharuch Tender-4 Appointment of O&M contractor for GSPL's PE network Hiring of Vehicle at various location of GSPL Gas grid

AMC of Fire extinguishers installed across GSPL Gas grid

Pre-Qualification of Contractor for Laying & Construction of Natural Gas Pipeline, Terminals & Associated Works across the state of Gujarat Interested bidders can view detailed NIT, Tender Documents, Bid Qualification Criteria (BQC) and Bidding Schedule on <a href="https://gspl.nprocure.com">https://gspl.nprocure.com</a>. Details can also be viewed on GSPL Website (http://www.gspcgroup.com/GSPL/). Bidders can submit their bid through https://gspl.nprocure.com and all future announcement related to this tender shall be published

Supply & Installation of Field mounted Flow Computers (FC) at various locations of GSPL

on https://gspl.nprocure.com ONLY. Date of tender upload on both websites: 21.06.2021 @ 15.00 Hrs IST

For following Tender details shall be available on GSPL Website (http://www.gspcgroup.com/GSPL/) only. For mode of bid submission bidder to refer RFP document.

Tender-9 : Hiring of Contractor for Inline Inspection of various Pipelines for GSPL GSPL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. GSPL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever

**Vedant Birl** Managing Directo

Tender-6

Tender-8

**BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LIMITED** sion No. 2, 1st Floor, D. D. Sathe Marg, Prarthana Samaj, Mumbai 400 004 Tel.: +91 022-23825060E-mail : info@birlaprecision.com Website : www.birlaprecision.in An ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 Company CIN: L29220MH1986PLC041214

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of Birla Precision Technologies Limited, will be held on **Wednesday**, **30th June**, **2021**, at First Floor Dalamal House, Nariman Point, Mumbai - 400021to approve & take on record, inter alia the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021.

The said intimation will be available on the website of the Company at www.birlaprecision.in

well as on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com Date: 21.06.2021

# संक्षेप में

# आरएचएफएल के लिए ऑटम सबसे बडी बोलीदाता

रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के लिए मुंबई के गैरा-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ऑटम इन्वेस्टमेंट को सबसे बड़ी बोलीदाता के तौर पर चुना गया है। कंपनी ने आरएचएफएल के लेनदारों को 2,900 करोड रुपये की पेशकश की है। आरएचएफएल के लिए पेशकश पर मतदान 31 मई को शरू होकर 19 जुन 2021 को संपन्न हुआ। मतदान में मुल्य के लिहाज से 91 फीसदी से अधिक लेनदारों की भागीदारी रही। कंपनी के लिए सबसे अधिक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की पेशकश किए जाने के बाद ऑटम इंडस्ट्रीज की पेशकश का चयन किया गया।

# प्रतिभा की मांग बनेगी बढ़त का अहम आधार

विप्रो के चैयरमैन ऋषद प्रेमजी ने कहा कि दुनिया भर के उद्यमों के वर्चअल मंच के साथ डिजिटल तरीको को तेजी से अपनाने की वजह से प्रतिभा की मांग आपर्ति को पीछे छोड देगी और विद्ध का एक ैमहत्वपूर्ण आधार बन जाएगी। प्रेमजी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि विप्रो ने ग्राहकों की बेहतर सेवा में मदद के लिए पिछले छह महीनों में बड़े बदलाव किए हैं और वह अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने और उसका लाभ उठाने के लिहाज से सही स्थिति में है। नैसकॉम के पूर्व चैयरमैन ने साथ ही कहा कि प्रौद्योगिकी आर्थिक सुधार में अक्सर अग्रणी भूमिका निभाती है।

सरकार उद्योग एवं अन्य हितधारकों से विचार-

विमर्श के बाद नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

नियमों पर मानक परिचालन प्रक्रिया

(एसओपी) लाएगी। एक सरकारी अधिकारी

ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके

जरिये हितधारकों द्वारा जताई गई चिंताओं को

दुर किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स

एवं सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही

'अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू)' का

एक सेट जारी करेगा ताकि इन नियमों के लिए आवश्यकताओं को सरल बनाया जा सके। कुछ

दिन पहले सचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर

. कॉर्पोरेट देनदार का नाम . कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि . प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार

सीमित दायित्य पहचान सं. कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो का पता

अनुमानित तिथि

गठित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या /

कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ

बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार अंतरिम

11. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि

12. अतरिम रिजोल्यूशन प्रोफंशनल द्वारा निर्धारित तानू नहीं किये गये अनुसार धारा 21 की उपधारा (6ए) के अनुस्केद (ख) के अधीन लेनदारों का वर्ग, यदि कोई हो

. एक वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नही तौर पर कार्य करने के लिए निर्धारित् किये गर्य

इनसॉल्वेसी प्रोफशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग मे

या डाक या इलेक्टॉनिक माध्यम से जमा कर सकते हैं।

दावों के झठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

तीन नाम)

14. (क) संगत फार्म और
(ख) अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध रहने का
विवरण

कार्य ए) सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियां के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) आरबीटी प्रार्ड्वेट लिमिटेडू के लेनदारों के ध्यानार्थ

अंतरिम रिजोल्युशन प्रोफेशनल के रुप मे कार्य अजय कुमार सिवाच इन्सॉल्वेसी प्रोफेशनल

करने के लिए इनसॉल्वेसी प्रोफेशनल का नाम | पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00668/2018-19/12214

रिजाल्यशन प्रोफेशनल का पता एवं ई-मेल फरीदाबाद.-121004. ई-मेल: siwachaiav@gmail.com

अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफ्शनल के साथ पत्रावार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एवं इं फरीदाबाद.—121004, ई—मेल: irpbrt2021@gmail.cor

03.07.2021

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 18.06.2021 (19.06.2021 को आदेश की प्रति

ु। आरबीटी प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा नीचे मद 10 में वर्णित पते पर अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनव

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा अपने दावों को जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे व्यक्तिग

को 03.07.2021 या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए सूचित किया जाता है।

ाप्त हुई) आरबीटी प्राईवेट लिमिटेड के विरूद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिय

आरबीटी प्राईवेट लिमिटेड

जिला पलवल फरीदाबाद एचआर 121102 इन.

पता : फ्लैट नं. 504, रामा कृष्णा सोसाइटी सेक्टर–2

संगत फार्म निम्नलिखित से डाउनलोड किया जा सकता

अजय कुमार सिवाच अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आरबीटी प्राईवेट लिगिटेड IBBI/IPA-002/IP-N00668/2018-19/12214

वेब लिंग : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं

पता : फ्लैट नं. 504, रामा कृष्णा सोसाइटी सेक्टर-2 फरीदाबाद,-121004

ई—मेल आई डी : siwachajay@gmail.com; irpbrt2021@gmail.com

18.06.2021 (19.06.2021 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई्)

आरओसी दिल्ली और हरियाण

U17299HR2016PTC064269

प्राप्त की गई यानी 12.02.2021)

नेहा अलावधी

नई दिल्ली, 20 जुन

# कार्लाइल सोदे के विकल्प पर विचार

पीएनबी हाउसिंग मुल्यांकनकर्ता की नियुक्ति और सैट से संपर्क करने की तैयारी में

अभिजित लेले और निकुंज ओहरी मुंबई, 20 जून

एनबी हाउसिंग फाइनैंस (पीएनबी एचएफसी) कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व में निवेशकों को तरजीही निर्गम की मंजरी हासिल करने के प्रस्ताव को रह करने वाले भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश के खिलाफ प्रतिभति अपीलीय पंचाट (सैट) में जाने, शेयर कीमतों के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र एवं पंजीकृत मुल्यांकक नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

कंपनी ने इस सौदे का समर्थन किया है। उसका कहना है कि यह सौदा शेयरधारकों के हित में है और उसने सेबी मानकों का पालन किया है। इस घटनाक्रम से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'कंपनी इस पर विचार कर रही है कि असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में कौन से कदम उठाए जाएंगे।

सेबी ने इस मॉर्गेज ऋणदाता को बताया है कि प्रतिभृति जारी करने और संबद्घ मामलों पर रिजोल्यूशन आवासीय वित्त कंपनी के आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) का 'अल्ट्रा-वायरस' यानी अधिकरों से परे था। रिजोल्यूशन (तरजीही आवंटन पर) तब तक कारगर नहीं

नए आईटी नियमों पर एसओपी की तैयारी

से ऐसा ही किया गया था। अधिकारी ने कहा.

'एफएक्य बेहद सरल प्रारूप में होंगे जो आईटी

नियमों की व्याख्या करेंगे। लेकिन एसओपी में

अधिक समय लग सकता है क्योंकि हमें सभी

हितधारकों से विचार-विमर्श करना होगा। यह

प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल

मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत

अधिकारियों की नियुक्ति सहित कई मुद्दों को

स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। भारत सरकार

ने नए आईटी नियमों को 25 फरवरी को

अधिसूचित किया था। सूचना एवं प्रसारण

मंत्रालय ने कुछ दिन पहले डिजिटल मीडिया

आचार संहिता के लिए एफएक्य जारी किए थे।

उद्योग नए आईटी नियमों अथवा सूचना

एक प्रक्रियात्मक दस्तावेज है।'



होगा जब तक कि कंपनी स्वतंत्र, पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा शेयरों का मुल्यांकन नहीं कराती।

बाजार नियामक ने कहा है कि कंपनी बोर्ड को शेयरों और वारंट के तरजीही निर्गम पर निर्णय लेने वक्त स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए।

आवास वित्त कंपनी निजी इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप और उसकी सहयोगियों को तरजीही आधार पर शेयर और वारंट जारी करने की योजना बना रही है। कार्लाइल ग्रप और उसकी सहयोगी कंपनियों ने मॉर्गेज ऋणदाता में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4.000 करोड़ रुपये निवेश करने की

डिजिटल मीडिया आचार संहिता भी नए आईटी

उद्योग नए आईटी नियम 2021 पर

एसओपी का इंतजार कर रहा है क्योंकि उन्हें

कुछ आवश्यकताओं के बारे में कहीं अधिक

स्पष्टता की दरकार है। ऐसी ही एक

आवश्यकता है हर महीने अनुपालन संबंधी

रिपोर्ट को प्रकाशित करना। उद्योग का मानना है

बिचौलियों या 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता

वाले प्लेटफॉर्म को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट

प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है जिसमें

प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया

कि इससे उन पर दबाव काफी बढ जाएगा।

नियम 2021 का हिस्सा है।

योजना बनाई है। वह तरजीही आवंटन पर विचार करने के लिए 22 जून को शेयरधारकों की ईजीएम बुलाई है। इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय वारंट के प्रस्तावित निर्गम के लिए कीमत 390 रुपये है।

प्रशासन संबंधित नियामक स्टेकहोल्डर्स इम्पावरमेंट सर्विसेज ने जुन के शुरू में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कार्लाइल ग्रुप, आदित्य पुरी और अन्य को 390 रुपये के हिसाब से शेयर और वारंट आवंटित करने का पीएनबी एचएफसी का निर्णय 'अनुचित' था।

पीएनबी एचएफसी ने बीएसई को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी ने संबंधित कानूनों के अनुरूप कार्य

जेट एयरवेज के नए स्वामी

कालरॉक जालान कंसोर्टियम को

करीब 20 हवाईअडडों से

आश्वासन मिला है कि अगर नई

विमानन कंपनी परिचालन दोबारा

शुरू करती है तो 170 जोडी स्लॉट

है कि क्या ये स्लॉट विमानन

कंपनी की मांग के मुताबिक होगा,

यह इस बात पर निर्भर करता है

कि दिवालिया अदालत का आदेश

क्या आता है, जो अगले हफ्ते आने

की उम्मीद है। सुत्रों ने कहा कि

नए प्रबंधन का मानना है कि इनमें

से कुछ स्लॉट उन्हें मिलना काफी

अहम है अन्यथा प्रीमियम हवाई

सेवा के तौर पर जेट के परिचालन

हालांकि यह नहीं बताया गया

उपलब्ध कराया जा सकता है।

कीमत ३९० रुपये है किया, जिनमें सेबी और एओए द्वारा

निर्धारित मूल्य निर्धारण नियम भी

मानकों का पालन किया है और

कीमतें शेयरधारकों के हित में हैं

और उसकी सहयोगियों को तरजीही

के लिए 22 जून को शेयरधारकों की

वारंट के प्रस्तावित निर्गम के लिए

आधार पर शेयर और वारंट जारी

करने की योजना बना रही है

ईजीएम बुलाई गई है

शामिल थे। पीएनबी एचएफसी ने कहा था कि कंपनी ने कंपनी की ऑडिटिक फर्म बीआर महेश्वरी ऐंड को. एलएलपी से तरजीही निर्गम के लिए मुल्यांकन रिपोर्ट (29 मई, 2021 को) हासिल की थी। फर्म के पार्टनर अमरेश सुद द्वारा इसकी समीक्षा और पष्टि की गई थी। सूद एक पंजीकृत मूल्यांकक हैं। इसके अलावा प्रबंधन को मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रमख निवेशक द्वारा 31 मई. 2020 को मुहैया कराई गई) भी हासिल की थी। वह रिपोर्ट पंजीकृत मल्यांकक विक्रम कैलाश जैन द्वारा जारी की गई थी।

की उनकी कारोबारी योजना

विमानन कंपनी को उड़ान भरने

या लैंडिंग के लिए दिया गया

समय होता है। दिल्ली, मुंबई,

और बेंगलूरु जैसे मेट्रो एयरपोर्ट

पर सुबह और शामल के स्लॉट

को अहम माना जाता है क्योंकि

ज्यादा किराया चुकाने वाले

कॉरपोरेट ट्रैवलर उसी दिन वापस

लौटने के लिए ये उडान पकडते

हैं। जब जेट का परिचालन बंद

हुआ तब जेट एयरवेज के पास

ऐसे 700 जोडी ऐसे स्लॉट थे.

जिनमें दिल्ली व मुंबई जैसे अहम

हवाई अड्डे के 116 व 214

स्लॉट शामिल हैं।

स्लॉट का मतलब किसी

व्यवहार्य नहीं होगी।

# अधिग्रहण संभावनाओं पर नजर बरकरार रहेगी

कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर ने कारोबारी धारणा को प्रभावित किया है लेकिन आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी का कहना है कि टीकाकरण



में तेजी आने के साथ ही उपभोक्ताओं में विश्वास बहाली होगी और अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार दिखेगा। पुरी ने **इंशिता आयान दत्त** से बातचीत में कहा कि पिछले साल कंपनी को कुछ कारोबारी श्रेणियों में वैश्विक महामारी का झटका लगा था लेकिन दूसरी छमाही के दौरान उसमें सुधार हुआ। गैर-सिगरेट एफएमसीजी कारोबार में वित्त वर्ष 2021 के दौरान 16 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जो उद्योग के प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। पेश हैं मुख्य अंशः

**महामारी की दूसरी लहर ने** सके। इसके अलावा, उद्देश्यपूर्ण किया है। क्या इससे सधार की इंजन, बाजार तक पहुंच बढ़ाने

रफ्तार प्रभावित होगी? दुसरी लहर ने ग्रामीण और शहरी प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों क्षेत्रों में ग्राहक धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बार ग्रामीण भारत में भी कोविड पिछले चार वर्षों के दौरान 640 संक्रमण के मामलों में तेजी दर्ज आधार अंकों की विद्ध दर्ज की बाजार की धारणा पर भी कुछ सकती है। हालांकि मॉनसन के स्टेशनरी उत्पादों कारोबार, आवाजाही बढ़ेगी। इससे मुकाबले लगभग दोगुना है। उपभोक्ताओं में विश्वास बहाली होगी और अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार दिखेगा।

एफएमसीजी राजस्व में मासिक आधार पर गिरावट दर्ज की गई। इसे लेकर निवेशकों की

हम स्पष्ट तौर पर निरंतर लाभप्रद वृद्धि के लिए निवेश कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की रणनीतिक समीक्षा के बाद लाइफस्टाइल खुदरा कारोबार में संकुचन दर्ज किया गया। जबकि एफएमसीजी उत्पाद पोर्टफोलियो में मजबूती अधिक ध्यान केंद्रित किया जा गए हैं।

ग्रामीण मांग को प्रभावित नवाचार, मल्टी-चैनल ग्रोथ और डिजिटलीकरण एफएमसीजी मार्जिन पर इसका स्पष्ट झलक दिखती है जिसमे की गई और इसलिए ग्रामीण गई है। हालांकि सालाना आधार पर प्रदर्शन की तुलना करना दबाव दिखा। इसलिए लोगों में अधिक उपयुक्त होगा। चौथी कम खर्च करने की प्रवृत्ति दिख तिमाही के दौरान शिक्षा और अच्छे रहने के अनुमान हैं और लाइफस्टाइल खुदरा कारोबार इस तथ्य को देखते हुए कि और सनराइज को अलग रखते अधिकतर विनिर्माण इकाइयां इस हुए एफएमसीजी मार्जिन में बार बंद नहीं हुईं, गैर-कृषि आय सालाना आधार पर 115 आधार का नुकसान पिछले साल के अंकों की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष मुकाबले कम हो सकता है। 2021 के दौरान आईटीसी के टीकाकरण की रफ्तार बढने के एफएमसीजी राजस्व में 16 साथ ही संक्रमण के मामलों में भी फीसदी की वृद्धि हुई जो उद्योग कमी आएगी और लोगों की के अन्य समूहों के औसत के

> आपने पिछले साल सनराइज का अधिग्रहण किया था। क्या आप अन्य अधिग्रहण की

हमारे एफएमसीजी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा ख़ुद के कारोबार चिंताओं को आप किस प्रकार के जरिये तैयार किया गया है। मुझे नहीं पता कि किसी अन्य कंपनी ने इतने कम समय में इतना बडा पोर्टफोलियो तैयार किया हो। हम मुल्य वृद्धि करने वाले अधिग्रहण संबंधी अवसरों का तलाश जारी रखेंगे। हमने पिछले साल सनराइज का अधिग्रहण किया था और पिछले कुद वर्षों में दर्ज की गई है। खाद्य कारोबार सैवलॉन एवं निमाइल सहित कई को विभिन्न क्लस्टर में पुनर्गठित अन्य ब्रांडों का अधिग्रहण जो किया गया है ताकि उस पर अधिग्रहण के बाद कई गुना बढ

जालान-कालरॉक कंसोर्टियम

को जेट स्लॉट का आश्वासन

💷 एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड CIN: L67120HR1994PLC034148 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com शेयरधारकों को सूचना

इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण एतद्द्वारा यह सूचना "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन. लेखापरीक्षा

अंतरण और वापसी) नियमावली 2016" कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा समय समय पर संशोधित ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित उक्त नियमावली में उन सभी शेयरों

का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में करने का प्रावधान किया गया है, जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात या अधिक वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है।

कम्पनी उन संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दे चुकी है कि वे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2013-14 से लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है अथवा जिसकी मांग नहीं की गई है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित

जिन शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी उन शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसके बाद वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे निर्गमन पर इन शेयरधारकों को जारी किए गए मल शेयर प्रमाणपत्र स्वत: निरस्त हो जाएंगे और अपराक्रम्य माने जाएंगे। जिन शेयरधारकों के पास शेयर डीमैट रूप में हैं, वे भी नोट करें कि उनके शेयर कम्पनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कार्पोरेट कार्यवाही द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेंट खाते में अंतरित किए जाएंगे।

कम्पनी इन शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.hbportfolio.com पर अपलोड कर चुकी है, जो शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी। इन शेयरों पर कोई भी अतिरिक्त लाभांश आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किया जाएगा। शेयरधारक आगे नोट करें कि इन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट किए जाने पर, मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक मांगी नहीं गई लाभांश राशि तथा आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए शेयरों की वापसी की मांग आईईपीएफ प्राधिकरण से, आईईपीएफ नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा कर सकते हैं। उक्त वापसी की मांग हेतु प्रक्रिया www.iepf.gov.in तथा www.hbportfolio.com पर उपलब्ध है। शेयरधारक, अपनी अवैतनिक लाभांश राशि की मांग आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट को 20 अक्टूबर, 2021 को अथवा पहले आवेदन देकर कर सकते हैं। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, कम्पनी उक्त नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से, उक्त नियमावली में अनुबद्ध प्रक्रिया के अनसार शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर देगी।

यदि शेयरधारकों को कोई सवाल है, कृपया आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि., श्री रवीन्द्र दुआ, फोन नंबर 011-26387320 ; ई—मेल rdua@rcmcdelhi.com से सम्पर्क करें।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड हस्ता./

तिथि : 19.06.2021 स्थान : गुरूग्राम

दिनेश कपर (कम्पनी सचिव) M. No.: F-6731

# कब्जा सूचना — (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8—(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोहस्ताक्षरी ने आईआईएफएल होम ाण्डानी लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडिया इंफोलाइन हाफरिंस फाइनेंस लिमिटेड) (आईआईएफएल एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी की झमता सं नीचे उल्लिखत कर्जदारों / सह-कर्जदारों को सूचना में वर्णित राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर अदा करने के लिए मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार के राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार और सर्व सामान्य को एत्त्दास् सूचित किया जाता है कि अधोहस्तासारी ने उक्त नियमावती के नियम 8 के साथ पतित उक्त उधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तिरायों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप में कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में एत्दहारा संपत्ति से कोई लेन—देन न करने के लिए आगाड़ किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई मी लेन—देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए आईआईएफएल एचएफएल के प्रभार के अधीन होगा।

- 'चन्या के रात्त आक्रमहरूपर पर स्वर्धके के अपने किया के अपने किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री के लिए नेमंत्रित तिथि या हस्तांत्रण से पूर्व किसी भी समय सभी लागतां, प्रमारों और वहन व्ययों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकाया का मुगाना कर तता है तो प्रचालून परिसंपत्तियों 'अईडाईएफएल एचएफएल' हारा बिक्री नहीं की जायेंगी और प्रचामूत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए 'आईआईएफएल एचएफएल' हारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेंगी।

(अचल संपत्ति) श्री नारायण जोशी २ विजय धिक विवरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालयः दूसरा तल, भारत प्लाजा, ई–112, कल तैयारी कर रहे हैं?

# (PUBLIC NOTICE)

Rajeev Chadha, Assistant Manager in The Oriental Insurance Company Limited, SR No. 229237, Assistant Manager, DO 3, New Delhi nformed that Original Fire Cover Note Book No 935924, containing Fire cover Note No 215600268258 had been Misplaced/Lost Stolen. This Cover Note is not valid/Legal document.

Registered a e-FIR No. LR No 393554/2027 dated 15/06/2021. f found please return to The Oriental Insurance

Company Limited, 8-13, Arunachal Building, Barakhamba Road New Delhi -110001

अंतिम तिथि में विस्तार प्मएसटीसी लि. के साथ अधिवक्ताओं/कानूर्न फर्मों की मुनीबादना के लिए आमंत्रित आवेदन पूछताछ सं. एमएसटीसी/लॉ/ एनआईटी/2021 22/01 के संदर्भ में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.06.2021 के बदले बढ़ाक दिनांक 29.06.2021 तक कर दी गई है, जबकि अन्य किसी शर्त में कोई परिवर्तन नहीं

लिमिटेड

CIN: L27320WB1964

किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमार्र वेबसाइट www.mstcindia.co.in देखें।

Notice is hereby given that pursuant regulation 29 of SEBI (Listing obligation Disclosure requirements) regulations 2015 the meeting of the Board of Directors of the Company M/s Acme Resources Limited wi be held on Tuesday, the 29"day of June 2021 at 3:00 P.M. at Registered office of the Company at 984, 9" Floor, Aggarwal Cybe Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura New Delhi- 110034 to inter-alia, consider an take on record the Consolidated an Standalone Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ender

# सार्वजनिक सूचना

ACME RESOURCES LTD. **Regd. Office**: 984, 9" Floor Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi – 110034

31st March 2021. By order of the Board for **Acme Resources Limite** 19st June, 2021 sd/- Managing Director

# एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि मा.

भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड के आदेश–WTM/AB/WRO/ ILO/2/2020-2021, के अनुसार ए2 फाइनेंसियल सर्विसेज शिकायतों/निवेशकों से अपने व्यावसायिक सम्बंध समाप्त कर रही है और प्रतिपूर्ति कर रही है दिए हुए नंबर पर विहीत समयावधि मे सम्पर्क करें।

आश्रतोष–6262392301/ आशीष-9893966669, इंदौर मध्य प्रदेश

# BAG

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड **CIN:** L74899DL1993PLC051841 **पंजी.कार्यालय**: 352, अग्रवाल प्लाजा, प्लॉट नं. 8

कोंडली, नई दिल्ली—110096 Tel. No. : 0120-4602424, Fax No. : 0120-3911401 Neb: www.bagnetwork24.in E-mail: info@bagnetwork.i

भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के

अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने के साथ–साथ अनुमोदन और सिफारिश किए गए अंतिम लॉभांश, यदि कोई है पर विचार करने के लिए मंगलवार, 29 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। यह सूचना कंपनी की www.bagnetwork24.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nse

india.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लि. के लिए

राजीव पराशर दिनांक : 19.06.2021 स्थान : नोएडा कंपनी सचिव

मांग सूचना कब्जे की की तारीख तारीख प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण

नेक्शन—4, शास्त्री नगर, निकट जैन ट्रैवल्स, जोधपुर—342001/या कारपोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 98, फेज—IV, उद्योग विहार, गुङगां हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, हिते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेर

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 सबरिक्रप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्य बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs bs@bsmail.ir

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के प्रचास किया जाता है। विद्यवस स्टेड के लियुजन एवं जानकारा से पर चारास्वाराचा के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लाग बिजनेस स्टेंडर्ड कोर्ड जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा ालार विषयित करिया है। बेन जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन स्ट्रभाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। रुषायत किता मा प्रकार की तांचा संवादत पद्मार्थनाता से हो किया गांगा नाहिए मैंठ बिजनेस स्टेंडर्ड प्राठ लिए का संविधिकार सुरक्षित हैं। बिजनेस स्टेंडर्ड प्राठ लिए से लिखित अनुमति लिए बगैर् समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा

इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू

# बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-८, सेक्टर-७, नोएडा, गौतम बद्ध नगर-२०१३०१, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, ४ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल

> पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599

या ५७५७५ पर एसएमएस करें REACHBS

कोई हवाई अधिभार नहीं

सेन्टल बैंक ऑफ़ इंडिया **Central Bank of India** शेयरधारक निदेशक का चुनाव केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के संबंध में दिनांक 21 मई 2021 के नोटिस के अनुसार, एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि बैंक को नामांकन की प्राप्ति की

बारे में जानकारी दी गई हो।

मंतिम तिथि। अर्थात 16 जन 2021 तक केवल एक नामांकन पाप्त हुआ था. प्रत्याशी श्री दिनेश पांगटे को शेयरधारकों के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए फिट और उचित पाया गया. चूंकि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्त के लिए केवल एक वैध नामांकन है. शेयरधारकों के निर्देशक का कोई चनाव नहीं होगा और उम्मीदवार श्री दिनेश पांगटे फ्लैट नं - 22 चौथी मंजिल वसंत महल पी एम शुक्ल मार्ग, सी-रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020 को दिनांक 1 जुलाई 2021 से इस प्रकार मनोनीत सामान्य बैठक को रह किया जाता है. निर्वाचित उम्मीदवार श्री दिनेश पांगटे दिनांक 01 जुलाई 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे.

दिनांकः 17 जून, 2021.

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आनंद कुमार दास

# SHRIRAM City

## श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालयः २४५-२४६, दूसरा तल, ओम करम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021, वेबसाइटः www.shriramcity.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदारों को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि को चुकता करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदारों और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित बंधक संपत्ति

विशेष रूप से कर्जदार और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यहाँ नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड के

का 18 जून, 2021 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार का नाम	मांग	संपत्ति का
और पता	सूचना	विवरण
ऋण करार सं.	₹.	जयपुर स्थित फ्लैट नं.
JAPR1TF1601060001	60,93,847/-	जीबी–403, 4वाँ तल, ब्लॉक–
1. मेसर्स कंट्री वाइड फार्म्स	(रुपये साठ	गारनेट–बी, अर्बन ज्वैल्स गाँव
(प्रोप. समीर भार्गव)	लाख तिरानवे	मदरामपुरा, सांगनेर, जयपुर,
(कर्जदार)	हजार आठ सौ	माप सीमा 1496.30 वर्ग फूट के
406—407, पिंक टॉवर सहारा चैम्बर्स	सैंतालीस मात्र)	समस्त भाग व खंड।
के पीछे, टौंक रोड, जयपुर—302015	दिनांक	परिबद्धः
2. श्री समीर भार्गव	22 मार्च, 2019	उत्तरः खुली जगह
पुत्र स्व. विजय प्रकाश भार्गव	को संदर्भ के	दक्षिणः लिफ्ट और खुली जगह
(सह—कर्जदार—जमानती)		_
3. श्रीमती बिंदू भार्गव	अंतर्गत भविष्य	पूर्वः कॉरिडोर और फ्लैट
पत्नी समीर भार्गव	की ब्याज,	नं. 404
(सह—कर्जदार—जमानती)	लागत और	पश्चिमः खुली जगह
प्लॉट नं. ८, मालवीय नगर, ए ब्लॉक,	प्रभारों सहित	
जयपुर—302017		
और यहाँ भी— एच—89, आरोन विला		
सेक्टर, फजलपुर रोड, 48 सोहना		
रोड, गुरुगाँव—122015		
सांकेतिक कब्जे की तारीख–		
18 जून, 2021		
एनपीए की तारीख— 03 अगस्त, 2018		

उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की

हस्ता. / -. प्राधिकत अधिकारी

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लि.

धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

स्थानः जयपर

दिनांकः 21.06.2021